



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299 |

No. 299 |

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2013/माघ 16, 1934

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2013/MAGHA 16, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2013

सं. 32 ( आरई-2012 )/2009-2014

विषय : खाद्य तेल के निर्यात के संबंध में दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 24 ( आरई-2012 )/2009-2014 में संशोधन ।

क्र.आ. 323(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 ( समय-समय पर यथासंशोधित ) के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा, निर्यात एवं आयात मर्दों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 की क्रम संख्या 92 से संबंधित दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 24(आरई-2012)/2009-2014 में तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है ।

2. खाद्य तेल के निर्यात पर रोक प्रारंभ में दिनांक 17-3-2008 की अधिसूचना सं. 85 द्वारा 17-3-2008 से एक वर्ष की अवधि के लिए लगाई गई थी जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था । दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 24 (आरई-2012)/2009-2014 के द्वारा खाद्य तेल के निर्यात पर रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी गई है ।

3. खाद्य तेल के निर्यात संबंधी रोक पर निम्नलिखित छूट की अनुमति दी गई है :

(क) आरंडी का तेल

(ख) सभी ईडीआई पत्तनों और भू-सीमा-शुल्क कार्यालयों (एलसीएस) के माध्यम से नारियल का तेल (एलसीएस अलग से अधिसूचित किए जाएंगे)

(ग) निर्यात किए जाने वाले गैर खाद्य माल के उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को डी टी ए से खाद्य तेलों (इनपुट कच्चे माल के रूप में) के मान्य निर्यात

(घ) लागू मूल्य संवर्धन मानकों के अध्वधीन संसाधित खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए एस ई जेड यूनिट द्वारा खपत किए जाने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) को स्वदेशी प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) से खाद्य तेल

(ङ) आई टी सी (एचएस) कोड 15159010, 15159020, 15159030, 15159040, 15179010 और 15219020 के तहत लघु वन्य उत्पादों से विनिर्मित खाद्य तेल ।

4. 1500 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य के तहत 5 किग्रा. तक के ब्रान्डेड उपभोक्ता पैक में खाद्य तेल का निर्यात अनुमत है ।

5. यह रोक पीनट बटर, आई टी सी (एचएस) कोड 15179020 के निर्यात पर लागू नहीं होगी [दिनांक 4 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 31 (आरई-2012)/2009-2014 के पैरा 1 की तालिका की क्रम संख्या 10 पर यह पहले ही अधिसूचित है।]

6. इस अधिसूचना का प्रभाव :

दिनांक 19-10-2012 (अधिसूचना सं. 24) को अधिसूचित खाद्य तेल के निर्यात संबंधी रोक पर छूट का विस्तार किया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/774/एम 10/निर्यात प्रकोष्ठ]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2013

No. 32 (RE-2012)/2009-2014

**Subject : Amendment in Notification No. 24(RE-2012)/2009-2014 dated 19th October, 2012 relating to export of edible oils.**

**S.O. 323(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014 (as amended from time to time), the Central Government hereby amends, with immediate effect, Notification No. 24(RE-2012)/2009-14 dated 19th October, 2012 relating to Sl. No. 92 of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export & Import Items.

2. Export of edible oils was initially prohibited for a period of one year with effect from 17-03-2008 *vide* Notification No. 85 dated 17-03-2008 which was extended from time to time. *vide* Notification No. 24(RE-2012)/2009-14 dated 19th October 2012, prohibition on export of edible oil has been extended till further orders.

3. Following exemptions are permitted from the prohibition on export of edible oils :

- Castor oil
- Coconut oil from all EDI Ports and through Land Custom Stations (LCS) [LCS to be notified separately]
- Deemed export of edible oils (as input raw material) from DTA to 100% EOUs for production of non-edible goods to be exported
- Edible oils from Domestic Tariff Area (DTA) to Special Economic Zones (SEZs) to be consumed by SEZ units for manufacture of processed food products, subject to applicable value addition norms
- Edible oils produced out of minor forest produce, ITC (HS) Code 15159010, 15159020, 15159030, 15159040, 15179010 and 15219020.

4. Export of edible oils in branded consumer packs of upto 5 kgs. is permitted with a Minimum Export Price of USD 1500 per MT.

5. The prohibition will not apply to export of Peanut Butter, ITC (HS) Code 15179020. [This already stands notified at Sl. No. 10 of the Table in Para 1 of Notification No. 31(RE-2012)/2009-14 dated 4th February, 2013.]

6. Effect of this notification :

Exemptions to prohibition on export of edible oils notified on 19-10-2012 (Notification No. 24) have been expanded.

[F. No. 01/91/180/774/AM 10/Export Cell]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade